



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23—जून 29, 2012 (आषाढ़ 2, 1934)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23 —JUNE 29, 2012 (ASADHA 2, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2012

सं. ए-32014/02/2006-प्रशा. 3--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 अप्रैल, 2012 के का.ज्ञा. सं. 5/8/2006-सीएस-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 30.09.2012 तक अथवा नियमित निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करते हैं :-

1. श्रीमती शान्ति सुधा अरोड़ा
2. श्री बी. डी. कौशिक
3. श्री नरेन्द्र कुमार-II
4. श्रीमती बनानी चौधरी
5. श्रीमती दीपा भरानी
6. श्रीमती शशि बाला नारंग
7. श्री डी. एस. गुडनू

8. श्रीमती सविता कपूर
9. श्री सतनाम सिंह
10. श्रीमती भारती चंचलानी
11. श्री राजीव भाटिया
12. श्रीमती अनिता सहगल
13. श्री अरूण वी. कुलकर्णी
14. श्रीमती सुष्मा सलूजा
15. श्रीमती ऊषा खेड़ा
16. श्रीमती दाविन्दर कौर
17. श्री कल्याण चन्द
18. श्रीमती सुनीता हरजाई
19. श्री आर. के. गंभीर
20. श्रीमती सुरिन्दर कौर बेदी
21. श्रीमती नीलम परवानी

22. श्री श्री पाल सिंह
 23. श्रीमती मधु सिंघल
 24. श्रीमती श्रेष्ठा ग्रीवर

2. अन्य नियम व शर्तें, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के दिनांक 31.05.2006 के का.ज्ञा. सं. 5/8/2006-सी.एस. II में उल्लिखित है, यथावत् रहेंगी।

गुलबीना बधान, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 मई 2012

सं. 12014/2/2009-आईएसएस--राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के निम्नलिखित परीक्षकों (2008 में आयोजित परीक्षा के द्वारा सीधी भर्ती) को 19.04.2012 से स्थायी रूप से कनिष्ठ समय वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम
1.	सुश्री अम्बिका आनंद
2.	सुश्री नेहा कालरा
3.	श्री विवेक श्रीवास्तव
4.	श्री श्री सुस्मित
5.	श्री शिव नाग मल्लेश्वरराव
6.	श्री पुरुषोत्तम वर्मा
7.	श्री सर्वेश्वर माझी
8.	श्री जडेजा लखअधीरसिंह एम. (पीएचसी)

टी. एस. जवाहर, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मई 2012

सं. ए-12012/1/2012-प्रशा. I--राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा, 2010 के परिणामों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नामों के आगे दिखाई गई तारीख से, समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 1961 के नियम 8(1)(क)(1) के तहत पे बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) + 5,400/- रु. (ग्रेड पे) में भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के ग्रेड-IV अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री ई. रेन्बी जामी	भा.सां.से. परीवीक्षक	30.01.2012 (पूर्वा.)
2.	श्री सुप्रिया सरकार	-वही-	02.02.2012 (पूर्वा.)
3.	सुश्री पूजा	-वही-	07.02.2012 (पूर्वा.)

2. उपरोक्त अधिकारी 2 वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे।

के. आर. शर्मा, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जून 2012

सं. 193/22/02/2012 (बी.के.)/993--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में अवर सचिव सुश्री बलजीत कौर, दिनांक 31 मई, 2012 (अपराह) से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

बी. सी. पात्रा, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 अप्रैल 2012

सं. के. 13017/1/2012-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश, न्यायविद् श्री सुनील गौड़ को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 मई 2012

सं. के. 13027/1/2012-यू.एस. II राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश, न्यायविद् श्री बीर किशोर मिश्रा को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 11 मई 2012

सं. के. 11017/03/2012-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री प्रदिप कुमार भद्रायुलाल मजुमदार को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 25 मई, 2012 को या उससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2012

सं. आई-14011/27/2011-आईपीएस-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 29.05.2012 को चयन समिति की दिनांक 09.12.2011 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2010 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में 25 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2010

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.*	सुनील कुमार हलदर	02.09.1958
2.	श्रीमती नीलू शेरपा चक्रवर्ती	12.12.1969
3.	श्रीमती भारती घोष	09.04.1962
4.	शुभंकर सिन्हा सरकार	19.05.1968
5.	कल्याण मुखोपाध्याय	07.11.1963
6.	प्रसुन बंदोपाध्याय	29.10.1969
7.	शंख शुभ्र चक्रवर्ती	28.10.1966
8.	अशेष विस्वाश	21.01.1971
9.	नीलाद्री चक्रवर्ती	15.06.1965
10.	उत्पल कुमार नस्कर	11.11.1970
11.	फरहत अब्बास	30.12.1970
12.#	मृणाल मजूमदार	14.03.1969
13.	अंजन चक्रवर्ती	28.06.1971
14.	उज्जवल कुमार भौमिक	15.09.1969
15.	रनेन्द्र नाथ बनर्जी	03.11.1968
16.	सुमनजीत रे	15.02.1967
17.	देबाशीष सरकार	02.01.1967
18.*	जयन्त मुखर्जी	03.12.1972
19.	स्वपन सरकार	10.02.1970
20.	श्रीमती सौगमिता लेपचा	17.09.1973
21.	महमूद अख्तर	15.12.1968
22.	अजय कुमार ठाकुर	01.12.1969
23.	श्रीमती सोमा दास मित्रा	20.09.1975
24.	श्रीमती कृष्णाकली लाहड़ी	05.08.1971
25.	अरनब घोष	13.09.1974

* क्रम सं. 1 एवं 18 पर दिये गये नामों को उनके विरुद्ध लंबित अपराधिक मामले के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

क्रम सं. 12 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है जो कि भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के नियम 5 (5) के प्रतिबंधों के अनुरूप है।

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. आई-14011/27/2011-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2010

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
सर्वश्री		
1.	श्रीमती नीलू शेरपा चक्रवर्ती	12.12.1969
2.	श्रीमती भारती घोष	09.04.1962
3.	शुभंकर सिन्हा सरकार	19.05.1968
4.	कल्याण मुखोपाध्याय	07.11.1963
5.	प्रसुन बंदोपाध्याय	29.10.1969
6.	शंख शुभ्र चक्रवर्ती	28.10.1966
7.	अशेष विस्वाश	21.01.1971
8.	नीलाद्री चक्रवर्ती	15.06.1965
9.	उत्पल कुमार नस्कर	11.11.1970
10.	फरहत अब्बास	30.12.1970
11.	अंजन चक्रवर्ती	28.06.1971
12.	उज्जवल कुमार भौमिक	15.09.1969
13.	रनेन्द्र नाथ बनर्जी	03.11.1968
14.	सुमनजीत रे	15.02.1967
15.	देबाशीष सरकार	02.01.1967

1	2	3
16.	स्वपन सरकार	10.02.1970
17.	श्रीमती सौगमित लेपचा	17.09.1973
18.	महमूद अख्तर	15.12.1968
19.	अजय कुमार ठाकुर	01.12.1969
20.	श्रीमती सोमा दास मित्रा	20.09.1975
21.	श्रीमती कृष्णाकली लाहड़ी	05.08.1971
22.	अरनब घोष	13.09.1974

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2012

सं. ए-32016/01/2006-एस.एस.ओ--सचिव, गृह मंत्रालय एतद्वारा श्री ओम प्रकाश, वरिष्ठ स्वागत अधिकारी, सचिवालय सुरक्षा संगठन को उनके द्वारा पर्यवेक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संशोधित वेतनमान पी.बी.-2, 9,300--34,800/- रु. + 4,600/- रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर पर्यवेक्षक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

हरचरण कौर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 जून 2012

सं. I-18011/02/2012-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अभिशेक बी. त्रिमुख, भा.पु.से. (महाराष्ट्र : 2007) को दिनांक 10.12.2009 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2012

सं. 23012/09/2012-अ.भा.से. (III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच 2011 की परिवीक्षार्थी और मध्य प्रदेश संवर्ग में रखी गई, सुश्री रूचिका दिवाकर को अपना नाम सुश्री रूचिका दिवाकर से बदल कर श्रीमती रूचिका चौहान करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तदनुसार वह सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए श्रीमती रूचिका चौहान के रूप में जानी जाएंगी।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 05 जून 2012

सं. 14015/01/2009-अ.भा.से.(I)-ख--डॉ. एम. हरि जवाहर लाल बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), हैदराबाद में दायर ओए सं. 1292/2011 में दिनांक 29.12.2011 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में संघ लोक सेवा आयोग

के निर्णय के पश्चात और इस आशय का प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार के दिनांक 13.02.2012 के पत्र द्वारा प्राप्त होने पर एम. हरि जवाहर लाल (अजजा) (जन्म तिथि दिनांक 10.06.1965) के नाम को बिना शर्त 2009 ए की चयन सूची, जिसे पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति की 10.06.2011 को हुई बैठक में तैयार किया गया है और आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, की क्रम संख्या 3 पर शामिल करने के लिए तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1955 के विनियमन 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री एम. हरि जवाहर लाल (अजजा) को भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त विनियमनों के विनियमन 5(1) के अधीन राज्य सरकार के परामर्श से चयन सूची 2009 ए (2009 की रिक्तियों पर) परिवीक्षा पर अगले आदेश तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अधीन आन्ध्र प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं। यह नियुक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2012

सं. 13017/06/2012-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार और नागालैण्ड की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार श्री असंगबा छूबा आओ, भा.प्र.से. (बिहार:03) की बिहार संवर्ग से नागालैण्ड संवर्ग में, अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 जून 2012

सं. 16/पीबी-III/2012--राष्ट्रपति इस मंत्रालय के दिनांक 29 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/12/2010 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के निजी सचिव से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं।

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि	पदोन्नति की तारीख
1	2	3	4
	(श्री/सुश्री)		
1.	अशोक भट्ट	04.01.1969	25.05.2012
2.	ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव	27.08.1956	25.05.2012

1	2	3	4
(श्री/सुश्री)			
3.	सी. गुरुसुब्रह्मयण	25.05.1964	25.05.2012
4.	राकेश विजय कावड़ा	01.05.1962	25.05.2012
5.	अशोक कुमार पहवा	04.11.1951	30.11.2011 को सेवानिवृत्त
6.	कुलभूषण अहूजा	09.09.1951	30.09.2011 को सेवानिवृत्त
7.	चंदर प्रकाश-II	01.01.1968	25.05.2012
8.	दीपा सहगल	06.09.1960	25.05.2012
9.	पी. पी. नारायणन	02.08.1960	28.05.2012
10.	सतीश कुमार सैनी	30.12.1967	25.05.2012
11.	नरेश कुमार	07.04.1969	25.05.2012
12.	सुशील दोभल	10.12.1965	25.05.2012
13.	जगदीप सिंह जुनेजा	12.12.1965	25.05.2012
14.	रीना जैन	07.01.1967	25.05.2012
15.	कविता खन्ना	01.01.1962	25.05.2012
16.	सुखविंदर सिंह	02.09.1968	25.05.2012
17.	के. रामालिंगम	08.03.1967	25.05.2012
18.	ओम प्रकाश	01.03.1967	25.05.2012
19.	रूप किशोर	23.07.1951	31.07.2011 को सेवानिवृत्त
20.	रवि अरोड़ा	15.01.1966	25.05.2012
21.	जी. रवीन्द्रन	10.02.1957	25.05.2012
22.	मोहम्मद अफसर	25.11.1963	25.05.2012
23.	अनिल नायब	06.11.1966	25.05.2012
24.	बलबीर राज सैनी	20.05.1967	25.05.2012
25.	रेखा रघुनाथन	27.04.1960	25.05.2012
26.	बालजी नागरथ	12.10.1967	25.05.2012
27.	चिंग होई किम	09.03.1971	25.05.2012
28.	होती लाल	22.11.1967	25.05.2012
29.	रोहित बब्बर	28.06.1970	25.05.2012

1	2	3	4
(श्री/सुश्री)			
30.	प्रदीप गुप्ता	21.05.1959	25.05.2012
31.	गिरीश कुमार जुनेजा	29.08.1967	25.05.2012
32.	संजीव कुमार	06.10.1969	25.05.2012
33.	राजीव गोस्वामी	05.08.1972	25.05.2012
34.	राकेश बनाती	26.11.1970	25.05.2012
35.	रवीन्द्र सिंह रावत	08.01.1954	25.05.2012
36.	प्रेम कुमार	04.05.1969	25.05.2012
37.	सुशील कुमार	20.03.1965	25.05.2012
38.	रमेश चंद कौशल	08.05.1967	25.05.2012
39.	अल्मा एसथर केरकेट्ट	28.04.1967	25.05.2012
40.	कोडे गोविंद राजू	10.06.1967	25.05.2012
41.	विवेक शर्मा	22.05.1974	25.05.2012
42.	एम. एम. इस्सर	31.07.1955	25.05.2012
43.	डोला मणी मेहर	15.05.1970	25.05.2012
44.	नरेन्द्र कुमार शर्मा	07.03.1953	25.05.2012
45.	तेजेन्द्र पाल चावला	06.07.1959	25.05.2012

2. ऊपर उल्लिखित अधिकारियों ने अपने नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से प्रधान निजी सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया है, उन अधिकारियों को छोड़कर जो क्रम संख्या 5, 6 और 19 पर उल्लिखित हैं, क्योंकि वे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

एस. के. ध्यानी, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-III)

कार्यालय : उप प्रोतोकाल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2012

सं. डीIII/460/सीएफ-64/2011--भारत की राष्ट्रपति मुंबई में चेक गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्रीमती रश्मि जौली की नियुक्ति को 29.03.2012 के प्रभाव से पाँच वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती हैं।

श्रीमती रश्मि जौली के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र तथा गोवा राज्य होंगे, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2012

सं. 2012 का 8 फा. सं. ए-39011/1/2010-प्रशा. VI क--राष्ट्रपति
दिनांक 16/12/2011 से भारतीय राजस्व सेवा से श्री राहुल नाथ का
तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

दिनांक 31 मई 2012

सं. 2012 का 10 (फा. सं. ए-12025/6/2010-प्रशा-VI)--राष्ट्रपति
निम्नलिखित आईआरएस(आईटी) अधिकारियों को सहायक आयुक्त
(कनिष्ठ वेतनमान) में 15,600--39,100/- रुपए (जमा पीबी-3 में
5,400/- रुपए ग्रेड वेतन) में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख
(तारीखों) से उस ग्रेड में वास्तविक क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

2006 बैच (सीएसई 2005)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	पुष्टि की तारीख
----------	-----	-----------	-----------------

1	2	3	4
	(सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)		
1.	अविजीत रक्षित	16.09.1981	18.12.2008
2.	राजेश कुमार मिश्रा	27.05.1977	18.12.2008
3.	राजदीप सिंह	19.08.1980	18.12.2008
4.	हेमन्त गुप्ता	05.09.1980	18.12.2008
5.	अमित कुमार सिंह	05.10.1979	18.12.2008
6.	बेढोबानी चौधुरी	21.01.1980	18.12.2008
7.	सुधांशु धर मिश्रा	06.11.1979	18.12.2008
8.	सुरभि शर्मा	16.02.1981	26.12.2008
9.	आलोक माल्या	29.05.1979	18.12.2008
10.	कल्पना सिंह	15.01.1981	18.12.2008
11.	रोली खेड़ा	14.01.1980	18.12.2008
12.	अजय मोदी	23.12.1978	18.12.2008
13.	प्रियंका सिंह	26.11.1982	18.12.2008
14.	रीचा रस्तोगी	22.09.1978	18.12.2008
15.	रुकमणी अत्री	23.08.1978	18.12.2008
16.	प्रसून काबरा	28.09.1980	18.12.2008

1	2	3	4
17.	योगेन्द्र मित्तल	26.01.1979	18.12.2008
18.	अभिषेख कुमार	02.10.1983	18.12.2008
19.	बनवार सिंह रत्नू	13.01.1976	18.12.2008
20.	राजीव कुमार	05.04.1977	18.12.2008
21.	खैरनर अमोल भरत	16.05.1977	05.01.2011
22.	मो. शदाब अहमद	01.03.1979	29.04.2009
23.	मानु चौरसिया	02.05.1976	29.04.2009
24.	मदनअप्पा गिरी ऐरप्पा	15.03.1975	18.12.2008
25.	राम कुमार यादव	15.08.1972	18.12.2008
26.	कुमार प्रणव	01.01.1973	18.12.2008
27.	सुभाष के आर	24.10.1975	07.02.2009
28.	रजत कुमार कुरील	28.07.1975	29.04.2009
29.	उमेश चन्द्र भारती	02.01.1977	18.12.2008
30.	टी शैरिंग ऑगडा	22.01.1979	18.12.2008
31.	पूनम शर्मा	04.07.1980	29.04.2009

2007 बैच (सीएसई 2006)

1.	नमिता खुराना	18.10.1981	10.12.2009
2.	मिनि चन्द्रन यू	05.04.1981	10.05.2010
3.	दिपी अग्रवाल	15.04.1980	10.12.2009
4.	श्वेता मिश्रा	15.10.1980	10.12.2009
5.	अभिषेख प्रभात	17.12.1979	10.12.2009
6.	प्रवीण वर्मा	09.09.1981	10.05.2010
7.	अपूर्वा भारद्वाज	08.08.1980	10.05.2010
8.	वी विद्याधर	30.01.1977	10.12.2009
9.	सौरभ सिंह	07.01.1982	10.12.2009
10.	अरजू घोडिया	05.12.1979	10.12.2009
11.	सीता श्रीवास्तव	01.07.1980	10.12.2009
12.	एन. हेमलता	12.04.1981	10.05.2010
13.	अमित कटैच	18.03.1978	10.12.2009
14.	मनीष कुमार झा	15.01.1978	10.12.2009
15.	सुमित कुमार वर्मा	11.09.1978	10.12.2009
16.	दिव्या के जे	07.02.1981	10.12.2009
17.	आलोक सिंह	02.09.1979	10.12.2009

1	2	3	4	1	2	3	4
18.	रमन गर्ग	25.08.1979	10.05.2010	51.	देश पांडे सौरभ ग्रीश	08.05.1981	10.05.2010
19.	जितेन्द्र मान	14.12.1983	10.05.2010	52.	आर. एस. अरविन्दक्षन	29.04.1982	10.12.2009
20.	एस. सुन्दर राजन	15.12.1980	10.05.2010	53.	राम प्रकाश मौर्या	12.07.1984	10.12.2009
21.	सूर्या शशवाई शुक्ला	06.05.1982	10.12.2009	54.	मोनिका राणा	19.08.1983	10.12.2009
22.	वेनी राज	02.05.1978	10.12.2009	55.	विकास सिंह	19.06.1979	10.12.2009
23.	मेहेन्द्र बिश्नोई	12.08.1980	10.12.2009	56.	लगनप्रीत संधु	03.03.1980	10.12.2009
24.	प्रशांत कुमार मिश्रा	14.01.1981	10.12.2009	57.	फरहत खान	18.08.1978	10.05.2010
25.	रजत मित्तल	20.03.1980	10.05.2010	58.	सन्दीप कुमार मिश्रा	16.06.1978	10.12.2009
26.	अनूप सिंह	30.06.1981	10.05.2010	59.	अदित्य शुक्ला	20.06.1981	10.12.2009
27.	सुधान्शु शेखर	01.03.1982	10.12.2009	60.	आषीश त्रिपाठी	05.08.1981	10.12.2009
28.	दिप्ती चन्दोला	08.04.1980	10.12.2009	61.	वीरेन्द्र सिंह	30.05.1980	10.12.2009
29.	वैभव जैन	04.10.1979	10.05.2010	62.	राजेश महाजन	28.11.1977	10.12.2009
30.	महेश गोपीनाथ जिवाडे	13.12.1978	10.12.2009	63.	शिन्दे सुधाकर नामदेव	25.05.1979	10.05.2010
31.	अंचल खांडेलवाल	02.06.1980	10.12.2009	64.	सुमन कुमार	01.03.1977	10.12.2009
32.	रूनी पाल	04.02.1977	10.12.2009	65.	रेनुगा देवी पी.	07.05.1977	10.12.2009
33.	पंकज श्रीवास्तव	05.07.1977	10.12.2009	66.	एच. कबिला	17.04.1982	10.12.2009
34.	कोशलेन्द्र तिवारी	25.09.1976	10.12.2009	67.	कीर्ति शंकरात्यायन	26.06.1977	10.12.2009
35.	विक्रांत पाल सिंह	20.04.1978	10.12.2009	68.	राम प्रकाश रस्तोगी	17.02.1977	10.12.2009
36.	अमनिन्द्र सिंह ढौढसा	22.04.1978	10.12.2009	69.	यशवेन्द्र सिंह	18.11.1980	10.12.2009
37.	बिपिन सी. एन.	04.05.1977	10.12.2009	70.	सी. यमुना	01.12.1978	10.12.2009
38.	अमित कुमार जैन	04.09.1979	10.12.2009	71.	रघु नाथ	05.02.1975	10.05.2010
39.	मुण्डे विश्वास सोपान राव	24.01.1980	10.05.2010	72.	शबाना प्रवीण	11.06.1974	10.12.2009
40.	एम. अनीता	03.07.1980	10.12.2009	73.	मीनाक्षी डोहारे	30.05.1982	10.12.2009
41.	प्रशांत रंजन	11.03.1979	10.12.2009	74.	जर्नाधनन वी.	03.02.1975	10.12.2009
42.	सौरभ कुमार राय	18.11.1978	10.05.2010	75.	वी. जस्तीन	25.05.1975	10.12.2009
43.	मुकेश जैन	26.03.1982	10.12.2009	76.	रजनी रानी रॉय	29.08.1977	10.12.2009
44.	अमरेश कुमार तिवारी	11.03.1980	10.05.2010	77.	सम्राट राही	01.03.1984	10.12.2009
45.	एम. एस. नेत्रपाल	23.06.1980	10.05.2010	78.	तरूणदीप	29.01.1982	10.12.2009
46.	मानव बंसल	27.10.1979	10.12.2009	79.	पवुना सुन्दरी ई.	12.06.1978	10.12.2009
47.	अनुपमा सिंगला	25.12.1980	10.12.2009	80.	अनूप सिंह	22.01.1978	10.12.2009
48.	शहनवाज उल रहमान	22.07.1982	10.05.2010	81.	मैमन निशा अंसारी	13.08.1978	10.12.2009
49.	राम तिवारी	20.10.1977	10.12.2009	82.	बी. रमन जेनयुलु	26.04.1981	10.12.2009
50.	अमित दुआ	07.10.1977	10.12.2009	83.	पुरुषोत्तम कुमार	09.04.1980	10.05.2010

1	2	3	4
84.	विजेन्द्र कुमार	16.12.1978	10.12.2009
85.	बोबडे अमित अशोकराव	23.04.1979	10.12.2009
86.	शिवानन्द एच. कलाकेरी	21.07.1975	10.12.2009
87.	दास रिगनेश कल्पेश	26.03.1978	10.12.2009
88.	मुरली मोहन एम.	01.06.1979	10.12.2009
89.	संजय कुमार यादव	02.12.1978	10.12.2009
90.	बी. नवीन कुमार	15.05.1978	10.12.2009
91.	अमित राज	02.12.1979	10.12.2009
92.	पी. मुथुशंकर	17.06.1979	10.12.2009
93.	राजेश कुमार यादव	30.10.1980	10.12.2009
94.	किरण डी.	10.04.1979	10.12.2009
95.	नरेन्द्र कुमार नायक	15.01.1980	10.12.2009
96.	अभिषेख मेशराम	15.09.1981	10.05.2010
97.	हुइड्रम रोबिन्द्रो सिंह	05.07.1979	10.12.2009
98.	मृनाल कुमार दास	26.06.1975	10.12.2009
99.	इन्द्र सोलंकी	14.06.1977	10.12.2009
100.	पल्वी	07.02.1983	10.12.2009
101.	धोके अजय गोपालराव	22.04.1978	10.05.2010
102.	परमार अल्पेशकुमार ट्रीकमलाल	09.10.1976	10.12.2009
103.	पूनम राय	08.08.1973	10.12.2009
104.	उमा शेखर प्रसाद	27.02.1977	10.12.2009
105.	मोहित मृणाल	01.10.1979	10.12.2009
106.	वघमारे विपुल दिगम्बर	15.10.1979	10.05.2010
107.	शशि काजले	04.02.1982	10.12.2009
108.	चंचल मीणा	15.08.1982	10.12.2009
109.	क्रांती	05.05.1980	10.12.2009
110.	रिन्ती रेन्थली	19.01.1981	10.05.2010
111.	प्रेम प्रकाश मीणा	08.08.1978	10.12.2009
112.	बिमल कुमार मीणा	10.08.1976	10.12.2009
113.	एम. सी. ओमी निगेशन	23.08.1976	10.12.2009
114.	सत्यपाल सिंह मीणा	25.09.1979	10.12.2009

1	2	3	4
115.	रोशान्ता कुमारी मीना	30.6.1980	10.12.2009
116.	सिद्धार्थ भीमसिंह मीणा	01.01.1980	10.12.2009
117.	कुमार अविकल मनु	04.11.1977	10.12.2009
118.	सुमित कौर	19.02.1978	10.12.2009
119.	पूजा स्वरूप	03.04.1978	10.12.2009

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2012

सं. 11016/4/2012-आईईएस-राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के 2008 बैच के निम्नलिखित ग्रेड-IV के अधिकारियों (कनिष्ठ समयमान) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से स्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं :

क्र सं.	नाम	स्थायीकरण की तारीख
	(श्री/श्रीमती/सुश्री)	
1.	मनु जे. वेस्टिकेन	01.03.2011
2.	रंगीत घोष	01.03.2011
3.	अभिषेक आचार्य	01.03.2011
4.	मोनिका जेटली	01.03.2011
5.	रहीस एम.	01.03.2011
6.	सुब्रत कुमार प्रधान	01.03.2011
7.	सोनामनी हाओबम	01.03.2011
8.	दीपक राव	01.03.2011
9.	सुभाजीत राय	01.03.2011
10.	जितेन्द्र सिंह	01.03.2011
11.	मनीषा मीना	01.03.2011
12.	प्रसन्ना बी. सालियन	01.03.2011
13.	शशिकुमार एस.	01.03.2011
14.	ममता	01.03.2011
15.	श्वेता	01.03.2011
16.	जया प्रियदर्शनी यारिकीपति	01.03.2011

ए. के. श्रीवास्तव, अवर सचिव

व्यय विभाग

दिनांक 6 जून 2012

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2012

सं. ए-12026/6/2010-एड. I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 20 मार्च, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री कुश लाल शर्मा को 1 मई, 2012 से वेतन बैंड-3, (15,600--39,100/- रु.) + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. आर. मूर्ति, अवर सचिव

महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 मई 2012

सं. ए-31013/1/2012/ग्रुप ए/796-801--समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय सिविल लेखा सेवा (ग्रुप 'ए') भर्ती नियमावली, 2006 के नियम 7 के प्रावधानों के संदर्भ में राष्ट्रपति भारतीय सिविल लेखा सेवा के 2008 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाई गई तारीख से वास्तविक क्षमता में कनिष्ठ समयमान (रु. 8,000--13,500/- संशोधन पूर्व (रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित नया वेतन बैंड-3) में नियुक्त करते हैं :-

नाम और वास्तविक नियुक्ति की तारीख

श्री हनुमैया कोरुकोंडा, 01.09.2010

आलोक रंजन, उप महालेखा नियंत्रक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मई 2012

सं. पीएफजी(659)/2002-प्रशासन-II--भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के वरिष्ठ समय-मान अधिकारी, श्री संजय कुमार गुप्ता ने कार्यालय आदेश संख्या 22011/1/2011-प्रशासन-II दिनांक 14.05.2012 द्वारा स्थानांतरण के परिणामस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में दिनांक 22.05.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक ई-गवर्नेंस सेल के उपनिदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. पीएफजी(594)/99-प्रशासन-II--भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, श्री पी. के. बट्टा ने कार्यालय आदेश संख्या 22011/1/2011-प्रशासन-II दिनांक 25.04.2012 द्वारा स्थानांतरण के परिणामस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में दिनांक 18.05.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. पीएफजी(528)/94-प्रशासन-II--केन्द्र सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बिबेकानंद मोहंती को शासकीय समापक कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड में दिनांक 14.05.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक शासकीय समापक नियुक्त करती है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जून 2012

सं. पीएफजी(1024)/2012-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री बी. कोटेश्वर राव, आई.आर.एस. (आई. टी. : 1992) को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 04 जून, 2012 अपराह्न से 4 जून, 2017 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 6 जून 2012

सं. पीएफजी(1025)/2012-प्रशासन-I--आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के फाईल सं. 13016/4/2012-भा.आ.से. के तहत जारी आदेश सं. पी-6/2012 दिनांक 29.05.2012 के अनुसरण में श्री पी. एस. डालोडिया, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी ने 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड + ग्रेड पे 6,600/- रुपए में भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ समय-मान में उनकी प्रोन्नति के पश्चात् दिनांक 6 जून, 2012 के पूर्वाह्न से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में उप निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 7 जून 2012

सं. ए-12023/01/2011-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति, श्री धनराज को कंपनी विधि बोर्ड के कार्यालय में 16 मई, 2012 की पूर्वाह्न से उनकी आयु 62 वर्ष होने तक अथवा कंपनी विधि बोर्ड का परिसमापन होने और राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का गठन/चालू होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, के लिए 67,000/- रुपए (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79,000/- रुपए के वेतनमान में सदस्य (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सं. ए-12023/01/2011-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति, अमलेश बंधोपाध्याय को कंपनी विधि बोर्ड के कार्यालय में 4 मई, 2012 की पूर्वाह्न से उनकी आयु 62 वर्ष होने तक अथवा कंपनी विधि बोर्ड का परिसमापन होने और राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का गठन/चालू होने तक

अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, के लिए 67,000/- रुपए (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79,000/- रुपए के वेतनमान में सदस्य (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यू. सी. नाहटा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सी) संख्या 671/2012 और नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय में बीना कालरा बनाम भारत का संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सी) संख्या 2782/2012 के परिणाम के अधीन है।

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2012

सं. ए-19011/488/1994-स्था.-I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में वरिष्ठ विकास अधिकारी, श्री एस. एस. बोस अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर दिनांक 31 मई, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19012/1331/2011-स्था.-I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निजी सचिव, श्री त्रिलोचन सिंह अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर दिनांक 31 मई, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19012/1259/2007-स्था.-I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी (तदर्थ), श्रीमती शशी मल्होत्रा, अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर दिनांक 31 मई, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19012/905/93-स्था.-I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव (पीपीएस), श्री वेद प्रकाश अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर दिनांक 31 मई, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19012/1253/2007-स्था.-I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ), श्री बलबीर सिंह अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर

दिनांक 31 मई, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2012

सं. 5/2012 (ए-12026/3/2009-स्था.)--राष्ट्रपति, वस्त्र राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) के सहायक निजी सचिव के रूप में पे बैंड-2 में 9,300--34,800/- रुपए + ग्रेड पे 4,800/- रुपए में कार्यरत श्री वी. श्रीनिवास, तकनीकी अधिकारी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली को वस्त्र राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) के अपर निजी सचिव के रूप में पे बैंड-3 में 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड पे 6,600/- रुपए के वेतनमान में 2 मई, 2012 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री वी. श्रीनिवास की नियुक्ति सह अस्तित्व आधार पर अथवा वस्त्र राज्य मंत्री की इच्छानुसार अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक होगी।

इन्द्रजीत सिंह, निदेशक

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जैवप्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-3, दिनांक 4 जून 2012

सं. ए-32011/01/2012-स्था.--सक्षम प्राधिकारी, श्री रवि भास्कर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक को वेतन बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. + 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन में इस विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) के पद पर प्रोन्नत कर 01 जून, 2011 के प्रभाव से और अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन पर रहेंगे जो कि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2012

सं. 12/7/2009-एसओ--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आलोक परती, आईएएस (एएम : 77) 31 मई, 2012 (अप.) से सेवा निवृत्त हो गए हैं। श्री आलोक परती ने 31.05.2012 (अप.) से कोयला मंत्रालय में सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

शरद घोडके, निदेशक

सं. 12/3/2012-एसओ--राष्ट्रपति, 31 मई, 2012 को श्री आलोक परती, आईएएस (एएम : 77) के सेवा निवृत्त हो जाने पर श्री एस. के.

श्रीवास्तव, आईएस (एएम : 78) को उनके स्थान पर कोयला मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार के रूप में 1 जून, 2012 (पूर्वा.) से अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं।

शरद घोडके, निदेशक

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2012

सं. 3/11/2004-स्था.--राष्ट्रपति, श्री रोखुम लालरेमरूता (आईसीएस-1996) को दिनांक 07.05.2012 के पूर्वाह्न से खान मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीता गुप्ता, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2012

सं. 2(2)/2012-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) श्री ए. जयकुमार मेनन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3(3)/2011-सीएस-II(ए) के तहत नियमित आधार पर पदोन्नत करने और चयन सूची वर्ष 2010 में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 20 मार्च, 2012 से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर प्रमुख निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(2)/2012-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) श्री राजेश शर्मा को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3(3)/2011-सीएस-II(ए) के तहत नियमित आधार पर पदोन्नत करने और चयन सूची वर्ष 2010 में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 30 मार्च, 2012 से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर प्रमुख निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(2)/2012-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) श्री सुश्री सुधा को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3(3)/2011-सीएस-II(ए) के तहत चयन सूची वर्ष 2010 में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 20 मार्च, 2012 से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर प्रमुख निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(2)/2012-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) श्री किशोरी लाल को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के

दिनांक 20 मार्च, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3(3)/2011-सीएस-II(ए) के तहत चयन सूची वर्ष 2010 में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 20 मार्च, 2012 से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर प्रमुख निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 2(2)/2012-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) श्री राजिन्दर वैद को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3(3)/2011-सीएस-II(ए) के तहत उन्हें नियमित आधार पर पदोन्नत किए जाने और चयन सूची वर्ष 2010 में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 20 मार्च, 2012 से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर प्रमुख निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 29 मई 2012

सं. ए-19011/6/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति, ने श्री पंकज कुमार, भारतीय दूरसंचार सेवा (1991) को कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

2. श्री पंकज कुमार, भारतीय दूरसंचार सेवा (1991) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में निदेशक के पद का कार्यभार 23.05.2012 (पूर्वाह्न) से ग्रहण कर लिया है। इस मंत्रालय में उनका केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 22.05.2017 तक होगा।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2012

सं. ए-12011/3/2012-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/10/2012-सी.एस.1 और दिनांक 29 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-सी.एस.1 (एस) के अनुसरण में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) श्री पीताम्बर पाठक को दिनांक 1 जून, 2012 पूर्वाह्न से 31 दिसम्बर, 2012 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 9,300--~~34,800/-~~ रु. के वेतन बैंड और 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

दिनांक 6 जून 2012

सं. ए-11011/1/2012-स्था.--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 2 अप्रैल, 2012 और 30 मई, 2012 के आदेश सं.13016/4/2012-आईईएस

के अनुसरण में वाणिज्य विभाग की सहायक निदेशक सुश्री भूमिका वर्मा, आईईएस को 1 जून, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड और 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 01 जून 2012

सं. ए-12023/4/95-स्था. 1--राष्ट्रपति, श्री सुधीर कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यूपी : 78) को 1 जून, 2012 के पूर्वाह्न से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 05 जून 2012

सं. ए-12025/235/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राकेश आजाद को दिनांक 15.10.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- रु.) + 5,400/- रु. (ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती हैं। डॉ. राकेश आजाद को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. राकेश आजाद नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 06 जून 2012

सं. ए-12025/135/2004-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सईद राशिद अनवर को दिनांक 11 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतनमान (8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती हैं। डॉ. सईद राशिद अनवर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. सईद राशिद अनवर दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 6 जून 2012

सं. ए-12025/35/2009-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुखदीप सिंह को 23 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न

से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के फॉरेन्सिक मेडिसिन की स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 07 जून 2012

सं. ए-12025/39/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. मधुलिका मोंगा को 28 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ के उप-संवर्ग में शरीर विज्ञान की विशेषता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 05 जून 2012

सं. ए-19013/03/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, डॉ. राम प्रसाद मीणा, आईपीएस (एम : 93) को 04 जून, 2012 के पूर्वाह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 31.05.2016 तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

एन. के. स्वामी, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2012

सं. 11023/23/फैसल/2012-आईटी--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद में कार्यरत श्रीमती एस. ममता, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी को 27.03.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद से स्थानांतरण आधार पर 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड पे 6,600/- रु. के पे बैंड-3 में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नई दिल्ली में महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र, नई दिल्ली में वैज्ञानिक-एसडी के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती एस. ममता, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन आहरित करती रहेंगी। तथापि, नई दिल्ली में यथा-स्वीकार्य स्थान आधारित भत्ते (अर्थात् मकान किराया भत्ता) दिया जाएगा।

प्रमोद कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 6 जून 2012

सं. 11023/01/फैसल/2012-आईटी--राष्ट्रपति, अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद में कार्यरत डॉ. शिबेन्दु शंकर रे,

वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी को 14.03.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद से स्थानांतरण आधार पर 37,400/-67,000/- रु. + ग्रेड पे 8,900/- रु. के पे बैण्ड-4 में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नई दिल्ली में महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र, नई दिल्ली में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

डॉ. शिवेन्दु शंकर रे, अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन आहरित करते रहेंगे। तथापि, नई दिल्ली में यथा-स्वीकार्य स्थान आधारित भत्ते (अर्थात् मकान किराया भत्ता) दिया जाएगा।

प्रमोद कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. 11023/01/फैसल/2012-आईटी--राष्ट्रपति, अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद में कार्यरत श्रीमती नीतू, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी को 15.03.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद से स्थानांतरण आधार पर 15,600/-39,100/- रु. + ग्रेड पे 5,400/- रु. के पे बैण्ड-3 में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नई दिल्ली में महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र, नई दिल्ली में वैज्ञानिक-एससी के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती नीतू, अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन आहरित करती रहेंगी। तथापि, नई दिल्ली में यथा-स्वीकार्य स्थान आधारित भत्ते (अर्थात् मकान किराया भत्ता) दिया जाएगा।

प्रमोद कुमार सिंह, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 04 जून 2012

सं. ए-12023/8/2011-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री शंकर लक्ष्मण, उपायुक्त (मात्स्यिकी बंदरगाह) को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में 01.06.2012 के पूर्वाह्न से नियमित पदोन्नति के आधार पर 37,400/-67,000/- रु. (पे बैण्ड-4) + 8,700/- रु. ग्रेड पे के वेतनमान में संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी-एंटी पोचिंग लॉ) के पद पर नियुक्त करती हैं।

आर.एस. जयाल, अवर सचिव

सं. ए-12025/15/2010-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री आर.के. गुप्ता, सहायक आयुक्त (डेयरी विकास) को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में 15,600/-39,100/- रु. (पे बैण्ड-3) + 7,600/- रु. ग्रेड पे के वेतनमान में 01.06.2012 के पूर्वाह्न से नियमित पदोन्नति के आधार पर उपायुक्त (डेयरी विकास) के पद पर नियुक्त करती हैं।

आर.एस. जयाल, अवर सचिव

केन्द्रीय मत्स्यकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान

बेंगलूर-560013, दिनांक 11 जून 2012

सं. ए-12(25)/2012-सीईएफ--विभागीय पदोन्नति समिति (समूह "ग") (राजपत्रित) की शिफारिशों पर केन्द्रीय मत्स्यकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान के कनिष्ठ अभियंता श्री एस. गोपालकृष्ण को वेतन बैंड-2, रु. 9,300/-34,800/- में ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में, दिनांक 7 जून 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी किए जाने तक सहायक अभियंता (सिविल) पद में पदोन्नत किया जाता है।

सी.टी. बेटगोरी, निदेशक

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2012

सं. ए-32014/01/2012-स्था.-I--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 30.01.2009 के आदेश सं. 12016/2/2009-एसएसएस और दिनांक 19.05.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12016/2/2011-एसएसएस के आधार पर राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से, अगले आदेशों तक, वेतन बैंड 9,300/-34,800/- रु. और 4,600/- रु. ग्रेड वेतन में ग्रामीण विकास मंत्रालय में सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I के रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं. नाम और कर्मचारी कोड	नियुक्ति की तारीख
1. श्री गंगा चरण, 3115	31.01.2009
2. श्री ओ.पी. मिश्रा, 3207	21.05.2009
3. श्री ए.डी. शर्मा, 3843	23.05.2011
4. श्री एस.सी. झा, 3900	01.07.2011
5. श्री एम. कुमार स्वामी, 3958	27.06.2011
6. श्री आशुतोष कुमार, 4056	30.12.2011
7. श्री जे.के. मीणा, 4221	19.05.2011
8. श्री पी.के. गुप्ता, 4203	09.01.2012
9. श्री कैलाश मनोहर सोमकुंवर, 4408	27.06.2011
10. श्री गुरुदयाल शर्मा, 4220	27.12.2011

जॉर्ज वाई., अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 01 जून 2012

सं. ए-32011/9/2006-ई-I--स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती अनिता कौल,

आईएस (कर्नाटक : 79) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के बड़े हुए कार्यकाल की समाप्ति के बाद वे 2 जून, 2012 (अपराह्न) से मंत्रालय से कार्यमुक्त हो गई हैं। श्रीमती अनिता कौल से अनुरोध है कि वे अपने मूल कैडर में अर्थात् कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट करें।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2012

सं. 2-1/2011-प्रशासन/के.हिं.नि./भाषा-I--राष्ट्रपति, सहर्ष केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के निम्न अधिकारियों को उप निदेशक (भाषा) के पद पर वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) सहित ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में उनके द्वारा पदों पर कार्यभार ग्रहण करते की तिथि से नियुक्त करते हैं:--

1. डॉ. बी.पी. निदारिया, सहायक निदेशक
2. श्रीमती कुलदीप कौर, सहायक निदेशक
3. डॉ. बलि राम प्रसाद, सहायक निदेशक

के.पी.जे. जराल्ड, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2012

सं. 4-37/2009-प्रशासन--राष्ट्रपति, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/27/2012-ईओ (एस. एम. I) के अनुसरण में श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 78), विशेष सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव के रूप में अपनी नई नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 01 जून, 2012 के पूर्वाह्न से कार्यमुक्त करती हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2012

सं. 12034/1/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री धीरेन्द्र ओझा, भारतीय सूचना सेवा (1990) को दिनांक 31.05.2012 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा इनके मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य की समाप्ति तक अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक निदेशक के स्तर पर (वेतन बैंड-4, 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड वेतन 8,700/- रु.) माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन, रामाकृष्णन, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 मई 2012

विषय:-- सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2010 (पूरक) के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" की नियुक्ति।

सं. 7-03/2009-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2010 के आधार पर श्री सनप बाजीराव रामनाथ (रैंक नं. 765) (अ.पि.व.) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में वेतन बैंड-3 के 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं:--

(i) वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यक्षीन होगी।

(iii) महिला उम्मीदवार की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगी कि यदि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यक्षीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा अभिशसित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और (ii) जाति प्रमाण-पत्र को उपयुक्त माध्यम से सत्यापित किए जाने के अध्यक्षीन होगा और यदि सत्यापन से यह ज्ञात होता है कि अ.पि.व. से होने या संपन्न वर्ग से नहीं होने के संबंध में उम्मीदवार का दावा असत्य है, तो बिना कोई कारण बताए तथा असत्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रभाव डाले बिना उनकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी

नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्वधीन होगी।

3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना हर हालत में दें। यदि वह नियुक्ति की यह पेशकश स्वीकार करते हैं तो महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं वित्त), दूरसंचार विभाग, एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट करें। यदि वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं तो यह पेशकश रद्द हो जाएगी।

5. जिस उम्मीदवार ने फाउंडेशन पाठ्यक्रम के भाग लिया है उसे फाउंडेशन पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-1)

सेवा में,

श्री सनप बाजीराव रामनाथ

मार्फत श्री केलगन्डे एस.

13, नवजीवन टीचर्स कॉलोनी

पीछे-एस.टी. स्टैंड

तालुका और जिला-बीड

महाराष्ट्र-424201

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 मई 2012

सं. 2(3)/2011-कार्मिक.1--राष्ट्रपति जी, ने श्रीमती पुष्पा गिलानी, संयुक्त निदेशक (स्व-स्थाने) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिनांक 31.05.2012 से 7,600/- रु. प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 में उप वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2012

सं. ईआरबी-1/2012/2/23--श्री शैलेन्द्र सिंह, एसजी/आईआरएसएमई, उत्तर रेलवे की वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति होने पर उन्हें दिनांक 16.05.2012 के अपराह्न से कार्यपालक निदेशक, यांत्रिक इंजीनियरी (कोचिंग), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव,
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2012

सं. 2006/ई(जीआर)1/3/1--राष्ट्रपति जी, प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से निम्नलिखित प्रोबेशनरों को भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा में सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं. नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.	सुनील कुमार	11.12.2006
2.	अतीन कुमार तोमर	11.12.2006
3.	विनय टाक	11.12.2006
4.	राकेश रंजन	11.12.2006
5.	के. मुतयाला नायडू	11.12.2006
6.	सुमीत खजूरिया	11.12.2006
7.	सोना पी.	11.12.2006
8.	नितिश कुमार रंजन	11.12.2006
9.	संदीप खंडेलवाल	14.12.2006
10.	योगेश कुमार शर्मा	11.12.2006
11.	देवेन्द्र गुप्ता	11.12.2006
12.	अनुपम अवस्थी	11.12.2006
13.	संदीप जैन	11.12.2006
14.	गौतम कुमार	11.12.2006
15.	श्रीनिवास मल्लाडी (अनंतिम)	11.12.2006
16.	एम. रमेश कुमार	19.12.2006
17.	अतुल	11.12.2006
18.	पुष्कर श्रीवास्तव	11.12.2006
19.	सुमित जैन	11.12.2006
20.	राजेश चिखले	11.12.2006
21.	बिस्वाजीत भोई	11.12.2006
22.	अजय सिंह	11.12.2006
23.	राजीव कुमार	11.12.2006
24.	भुवनेश सिंह	11.12.2006
25.	गोसीकौंडा श्रीनिवासराम	11.12.2006
26.	शोभनाथ	11.12.2006
27.	अनुराग कुमार	11.12.2006
28.	संजय कुमार यादव	11.12.2006
29.	रिज़वान अहमद	11.12.2006

1	2	3
30.	वारिज नयन (अनंतिम)	11.12.2006
31.	शेमलूंग कामई	11.12.2006
32.	परितोष गौतम	11.12.2006
33.	अजीत सिंह (अनंतिम)	18.12.2006
34.	हरीश कुमार	11.12.2006
35.	राजेन्द्र कुमार मीना	11.12.2006
36.	सीतेश दास	11.12.2006
37.	गौरव	11.12.2006
38.	राकेश कुमार श्रेयसिया	11.12.2006
39.	होजल वेलंगुलमूआन	11.12.2006
40.	लखन लाल मीना	11.12.2006
41.	विजय सिंह मीना	11.12.2006

ममता कंडवाल, संयुक्त निदे. स्था. (जीआर)

पोत-परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2012

सं. एल.एच.-21013/1/2012-एस.एल.--राष्ट्रपति, श्री जे. एस. चेल्ला, तकनीशियन (सामान्य) को, दीप-स्तंभ और दीप-पोत महानिदेशालय में दिनांक 07 मार्च, 2012 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक 6,500-200-10,500/- रु. (संशोधन पूर्व) पीबी-2, 9,300--34,800/- रु. + 4,600 रु. (संशोधित) ग्रेड पे के वेतनमान में सहायक इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

कंचन बी. हमज़ा, अवर सचिव

सं. एल.एच.-21013/1/2012-एस.एल.--राष्ट्रपति, श्री ए. के. देवता, सहायक कार्यपालक इंजीनियर (इलैक्ट्रोनिक्स) को, दीप-स्तंभ और दीप-पोत महानिदेशालय में दिनांक 02 अप्रैल, 2012 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक पीबी-3, 15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. ग्रेड पे के वेतनमान में उप निदेशक के पद पर पदोन्नत करते हैं।

कंचन बी. हमज़ा, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2012

सं. ए-12023/1/2009-ई-1--राष्ट्रपति, श्री जी. सी. उपाध्याय, प्रधान निजी सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) को 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 और 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में दिनांक 01.05.2012 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक

अथवा जब तक मंत्री जी को उनकी सेवाएं चाहें अथवा पद छोड़ने तक, जो भी पहले हो, डॉ. सी. पी. जोशी, माननीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 4 जून 2012

सं. ए-12025/1/2010-ई-1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.02.2012 के कार्यालय आदेश सं. 9/30/2009-ईओ (एमएम-1) के तहत, श्री रोहित कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आरजे-97) को 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 और 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में पारिर्वक शिफ्ट आधार पर दिनांक 20.04.2012 (पूर्वाह्न) से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 10.11.2014 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2012

सं. 16/2012 (फा. सं. 5/3/2012 प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, दिनांक 20.03.2012 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सीएस-II (क) के माध्यम से चयन सूची वर्ष 2010 के लिए प्रधान निजी सचिव के पैनल में उनके नामों को शामिल करने और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग के लिए नामांकन के परिणामस्वरूप, अगले आदेशों के होने तक 20.03.2012 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रु. + ग्रेड पे 6,600/- रु.) में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित तदर्थ प्रधान निजी सचिवों को नियुक्त करते हैं:--

क्रम	नाम	तैनाती
सं.		
1	2	3
	(सर्वश्री/सुश्री)	
1.	अशोक कुमार-II	विद्युत मंत्रालय
2.	एस. दत्तात्रेयालू	के.वि.प्रा.
3.	आर. के. पिपलानी	के.वि.प्रा.
4.	श्रीमती नरेश चोपड़ा	एम.एन.आर.ई.
5.	श्रीमती मंजू शर्मा	विद्युत मंत्रालय
6.	पी. एस. भंडारी	विद्युत मंत्रालय
7.	वी. के. मनचंदा	के.वि.प्रा.
8.	श्रीमती स्वर्ण लता	विद्युत मंत्रालय
9.	श्रीमती बी. संध्या	के.वि.प्रा.

1	2	3
10.	भूप सिंह	विद्युत मंत्रालय
11.	जितेन्द्र भगत	एम.एन.आर.ई.
12.	महेश कुमार गुप्ता	के.वि.प्रा.
13.	श्रीमती दर्शन कौर	विद्युत मंत्रालय
14.	एस. राधागंगाधरन	के.वि.प्रा.
15.	पी. वी. मोहन	के.वि.प्रा.
16.	एस. मुरलीधरन	के.वि.प्रा.
17.	अंजू विज	एम.एन.आर.ई.
18.	सुभाष कुमारी कैले	एम.एन.आर.ई.
19.	सी. एस. रविन्द्रमणी	के.वि.प्रा.
20.	स्नेह लता जवास	विद्युत मंत्रालय

पी. पी. बोस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 2012

सं. 13/2012 (मि.सं.ए-38012/1/2012-प्रशा.एक)---अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग

(समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी, भारत सरकार की सेवा से निवृत्त हो गए हैं :---

क्रम सं.	नाम	पद का नाम	पद निवृत्त करने की तिथि
1.	श्री पी. रावत	मुख्य अभियंता	31.05.2012
2.	श्री एम. के. खंडेलवाल	निदेशक	31.05.2012
3.	श्री भूपिंदर सिंह	निदेशक	31.05.2012

मधुकर सूद, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2012

सं. ए-32013/1/2012-न.प्रा.नि.सं./प्रशासन-III/यू.डी.-II--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति की ओर से श्री आर. श्रीनिवास, सह नगर एवं ग्राम नियोजक को पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक के लिए वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/- के वेतनमान में नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में नगर एवं ग्राम नियोजक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 25th May 2012

No. A-32014/02/2006-Adm.III—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2006-CS.II(A) dated the 13th April, 2012, the President is pleased to extend the tenure of ad hoc appointments of the following officers in the Private Secretary (PS) Grade of CSSS upto 30.09.2012 or till regular PS of CSSS become available, whichever is earlier :—

1. Smt. Shanti Sudha Arora
2. Shri B. D. Kaushik
3. Shri Narender Kumar-II
4. Smt. Banani Choudhary
5. Smt. Deepa Bharani
6. Smt. Shashi Bala Narang
7. Shri D. S. Gudnu
8. Smt. Savita Kapoor
9. Shri Satnam Singh
10. Smt. Bharti Chanchlani
11. Shri Rajeev Bhatia
12. Smt. Anita Sehgal
13. Shri Arun V. Kulkarni
14. Smt. Sushma Saluja
15. Smt. Usha Khera
16. Smt. Davinder Kaur
17. Shri Kalyan Chand
18. Smt. Sunita Harjai
19. Shri R. K. Gambhir
20. Smt. Surinder Kaur Bedi
21. Smt. Neelam Parwani
22. Shri Shri Pal Singh
23. Smt. Madhu Singhal
24. Smt. Sarishta Grover

2. Other terms and conditions mentioned in the DoP&T's OM No. 5/8/2006-CS-II dated 31.05.2006 will remain unchanged.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 29th May 2012

No. 12014/2/2009-ISS—The President is pleased to appoint the following probationers of the Indian Statistical Service

(direct recruits of the examination held in 2008) substantively to Junior Time Scale of the Service w.e.f. 19.4.2012 :—

Sl.No.	Name
1.	Ms. Ambica Anand
2.	Ms. Neha Kalra
3.	Mr. Vivek Srivastava
4.	Mr. Sri Susmit
5.	Mr. Siva Naga Malleswararao
6.	Mr. Purushottam Verma
7.	Mr. Sarbeswar Majhi
8.	Mr. Jadeja Lakhadhirsinh M. (PHC)

T. S. JAWAHAR, Dir.

New Delhi-110001, the 22nd May 2012

No. A-12012/1/2012-Ad.I—The President is pleased to appoint the following candidates recommended by the Union Public Service Commission on the basis of results of the Indian Statistical Services Examination, 2010 as Grade IV officers of the Indian Statistical Service (ISS) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + 5,400/- (Grade Pay) under Rule 8(1)(a)(1) of the ISS Rules, 1961 as amended from time to time w.e.f. the date(s) mentioned against their name(s) :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of joining
1.	Shri E. Renbi Jami	ISS Probationer	30.01.2012 (F/N)
2.	Shri Supriya Sarkar	—do—	02.02.2012 (F/N)
3.	Ms. Pooja	—do—	07.02.2012 (F/N)

2. They will be on probation for a period of two years.

K. R. SHARMA, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 5th June 2012

No. 193/22/02/2012 (BK)/993—On attaining the age of superannuation, Ms. Baljit Kaur, Under Secretary in the Election Commission of India, has retired from the service with effect from afternoon of 31st May, 2012.

B. C. PATRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 9th April 2012

No. K-13017/1/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sunil Gaur, Additional Judge of the Delhi High Court, to be a Judge of the Delhi High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 10th May 2012

No. K-13027/01/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Bira Kishore Misra, Additional Judge of the Orissa High Court, to be a Judge of the Orissa High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 11th May 2012

No. K-11017/03/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Pradeepkumar Bhadravulal Majmudar, Judge of the Bombay High Court, as a Judge of the Gujarat High Court and to direct him to assume charge of his office in the Gujarat High Court on or before 25th May, 2012.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th June 2012

No. I-14011/27/2011-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 29.05.2012 approved the Select List of the year 2010 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 09.12.2011, containing the names of the following State Police Service Officers of West Bengal towards filling up 25 substantive vacancies in the IPS of West Bengal Cadre :—

SELECT LIST 2010

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.*	Sunil Kumar Halder	02.09.1958
2.	Neeloo Sherpa Chakraborty	12.12.1969

1	2	3
	S/Shri/Smt.	
3.	Bharati Ghosh	09.04.1962
4.	Subhankar Sinha Sarkar	19.05.1968
5.	Kalyan Mukhopadhyay	07.11.1963
6.	Prasun Bandopadhyay	29.10.1969
7.	Shankha Shubra Chakraborty	28.10.1966
8.	Ashesh Biswas	21.01.1971
9.	Niladri Chakraborty	15.06.1965
10.	Utpal Kumar Naskar	11.11.1970
11.	Farhat Abbas	30.12.1970
12.#	Mrinal Majumder	14.03.1969
13.	Anjan Chakraborty	28.06.1971
14.	Ujjwal Kumar Bhowmik	15.09.1969
15.	Ranendra Nath Banerjee	03.11.1968
16.	Sumanjit Ray	15.02.1967
17.	Debasis Sarkar	02.01.1967
18.*	Jayanta Mukherjee	03.12.1972
19.	Swapan Sarkar	10.02.1970
20.	Songmit Lepcha	17.09.1973
21.	Mehmood Akhtar	15.12.1968
22.	Ajay Kumar Thakur	01.12.1969
23.	Soma Das Mitra	20.09.1975
24.	Krishnakali Lahiri	05.08.1971
25.	Arnab Ghosh	13.09.1974

* The names of officers at Sl. No. 1 & 18 have been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against them and grant of integrity certificates by the State Govt.

The name of officer at Sl. No. 12 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Govt., in accordance with the provisions of Reg. 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. I-14011/27/2011-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of West Bengal Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate

them to the West Bengal Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST 2010

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri/Smt.	
1.	Neeloo Sherpa Chakraborty	12.12.1969
2.	Bharati Ghosh	09.04.1962
3.	Subhankar Sinha Sarkar	19.05.1968
4.	Kalyan Mukhopadhyay	07.11.1963
5.	Prasun Bandopadhyay	29.10.1969
6.	Shankha Shubra Chakraborty	28.10.1966
7.	Ashesh Biswas	21.01.1971
8.	Niladri Chakraborty	15.06.1965
9.	Utpal Kumar Naskar	11.11.1970
10.	Farhat Abbas	30.12.1970
11.	Anjan Chakraborty	28.06.1971
12.	Ujjwal Kumar Bhowmik	15.09.1969
13.	Ranendra Nath Banerjee	03.11.1968
14.	Sumanjit Ray	15.02.1967
15.	Debasis Sarkar	02.01.1967
16.	Swapan Sarkar	10.02.1970
17.	Songmit Lepcha	17.09.1973
18.	Mehmood Akhtar	15.12.1968
19.	Ajay Kumar Thakur	01.12.1969
20.	Soma Das Mitra	20.09.1975
21.	Krishnakali Lahiri	05.08.1971
22.	Arnab Ghosh	13.09.1974

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 8th June 2012

No. A-32016/01/2006-SSO—Secretary in the Ministry of Home Affairs hereby appoints Shri Om Prakash, Senior Reception Officer in the Secretariat Security Organisation as Supervisor on a regular basis in the revised Pay Scale of PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- with effect from the date he assumes the charge of the post of Supervisor.

HARCHARAN KAUR, Under Secy.

New Delhi-110001, the 12th June 2012

No. I-18011/02/2012/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Abhishek B. Trimukhe, IPS (MH: 2007), in the Indian Police Service with effect from 10.12.2009.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 31st May 2012

No. 23012/9/2012-AIS-III—Ms. Ruchika Diwakar, probationer of the Indian Administrative Service batch 2011 and borne on the cadre of Madhya Pradesh, has been permitted to change her name from Ms. Ruchika Diwakar to Smt. Ruchika Chauhan. She will accordingly be recognised as Smt. Ruchika Chauhan for all official purposes.

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

New Delhi, the 5th June 2012

No. 14015/01/2009-AIS (I)-B—Consequent upon the decision of the Union Public Service Commission in pursuance of the directions dated 29.12.2011 of the Hon'ble CAT, Hyderabad Bench in OA No. 1292/2011 filed by Dr. M. Hari Jawaharlal Vs. Govt. of A.P. and others and on receipt of a proposal to this effect from the Government of Andhra Pradesh through their letter dated 13.2.2012 to declare the inclusion of the name of Shri M. Hari Jawaharlal (ST) (Date of Birth: 10.06.1965) as unconditional at Sr. No. 3 in the Select List of 2009A prepared for appointment to Andhra Pradesh Cadre of Indian Administrative Service by Promotion by the Selection Committee in its meeting held on 10.06.2011 and approved by the Commission and in exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri M. Hari Jawaharlal (ST), member of the State Civil Service of Andhra Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2009A (against the vacancies of 2009) on probation until further orders and to allocate him to the Andhra Pradesh Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954. The appointment will take effect from the date of the issue of this notification.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 5th June 2012

No. 13017/06/2012-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Bihar and Nagaland the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Asangba Chuba Ao, IAS (BH:03) from Bihar cadre to Nagaland cadre for a period of three years from date of assumption of charge or until further orders, whichever is earlier.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st June 2012

No. 16/PB-III/2012—The President is pleased to appoint the under mentioned officers belonging to Private Secretary of the Stenographers Cadre of IFS (B) to officiate in the Grade of Principal Private Secretary (PPS) of the Stenographers Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against their names in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/12/2010 dated 29th May, 2012 :—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Date of Promotion
1	2	3	4
	Shri/Ms.		
1.	Ashok Bhatt	04.01.1969	25.05.2012
2.	Gyaneshwar Srivastava	27.08.1956	25.05.2012
3.	C. Gurusubramanian	25.05.1964	25.05.2012
4.	Rakesh Vijay Kawra	01.05.1962	25.05.2012
5.	Ashok Kumar Pahwa	04.11.1951	Retired on 30.11.2011
6.	Kul Bhushan Ahuja	09.09.1951	Retired on 30.09.2011
7.	Chander Prakash-II	01.01.1968	25.05.2012
8.	Deepa Sehgal	06.09.1960	25.05.2012
9.	P. P. Narayanan	02.08.1960	28.05.2012
10.	Satish Kumar Saini	30.12.1967	25.05.2012
11.	Naresh Kumar	07.04.1969	25.05.2012
12.	Sushil Dobhal	10.12.1965	25.05.2012
13.	Jagdeep Singh Juneja	12.12.1965	25.05.2012
14.	Reena Jain	07.01.1967	25.05.2012
15.	Kavita Khanna	01.01.1962	25.05.2012
16.	Sukhvinder Singh	02.09.1968	25.05.2012
17.	K. Ramalingam	08.03.1967	25.05.2012
18.	Om Prakash	01.03.1967	25.05.2012

1	2	3	4
	Shri/Ms.		
19.	Roop Kishore	23.07.1951	Retired on 31.07.2011
20.	Ravi Arora	15.01.1966	25.05.2012
21.	G. Raveendran	10.02.1957	25.05.2012
22.	Mohammad Afsar	25.11.1963	25.05.2012
23.	Anil Naib	06.11.1966	25.05.2012
24.	Balbir Raj Saini	20.05.1967	25.05.2012
25.	Rekha Raghunathan	27.04.1960	25.05.2012
26.	Balji Nagrath	12.10.1967	25.05.2012
27.	Ching Hoih Kim	09.03.1971	25.05.2012
28.	Hoti Lal	22.11.1967	25.05.2012
29.	Rohit Babbar	28.06.1970	25.05.2012
30.	Pradeep Gupta	21.05.1959	25.05.2012
31.	Girish Kumar Juneja	29.08.1967	25.05.2012
32.	Sanjeev Kumar	06.10.1969	25.05.2012
33.	Rajeev Goswami	15.08.1972	25.05.2012
34.	Rakesh Banati	26.11.1970	25.05.2012
35.	Ravinder Singh Rawat	08.01.1954	25.05.2012
36.	Prem Kumar	04.05.1969	25.05.2012
37.	Sushil Kumar	20.03.1965	25.05.2012
38.	Ramesh Chand Kaushal	08.05.1967	25.05.2012
39.	Alma Esther Kerketta	28.04.1967	25.05.2012
40.	Kode Govind Raju	10.06.1967	25.05.2012
41.	Vivek Sharma	22.05.1974	25.05.2012
42.	M. M. Issar	31.07.1955	25.05.2012
43.	Dolamani Meher	15.05.1970	25.05.2012
44.	Narender Kumar Sharma	07.03.1953	25.05.2012
45.	Tejinder Pal Chawla	06.07.1959	25.05.2012

2. The above mentioned officers have assumed charge of the post of Principal Private Secretary with effect from the dates indicated against their names excepting those mentioned at Sl. No. 5, 6 & 19 who have retired from the Government Service.

S. K. DHYANI, Admin. Officer (PB-III)

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 1st June 2012

No. DIII/460/CF-64/2011—The President is pleased to recognize the appointment of Mrs. Rashmi Jolly as Honorary

Consul of the Czech Republic in Mumbai for a period of five years with effect from 29.03.2012.

The consular jurisdiction of Mrs. Rashmi Jolly comprises the States of Maharashtra and Goa with the seat in Mumbai.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 7th May 2012

No. 8 of 2012 (F. No. A-39011/1/2010-Ad.VI)—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Rahul Nath from Indian Revenue Service with effect from 16.12.2011.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

The 31st May 2012

No. 10 of 2012 F.No. A-12025/6/2010-Ad.VI—The President is pleased to appoint the following IRS (IT) officers in the grade of Assistant Commissioner of Income Tax (Junior Scale) in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- (Plus the grade pay of Rs. 5,400/- in PB-3) in substantive capacity in that grade with effect from the date(s) indicated against each:—

2006 Batch (CSE 2005)

Sl. No.	Name	Date of Birth	Date of Confirmation
1	2	3	4
	S/Shri/Ms/Smt.		
1.	Awijit Rakshit	16.09.1981	18.12.2008
2.	Rajesh Kumar Mishra	27.05.1977	18.12.2008
3.	Rajdeep Singh	19.08.1980	18.12.2008
4.	Hemant Gupta	05.09.1980	18.12.2008
5.	Amit Kumar Singh	05.10.1979	18.12.2008
6.	Bedobani Chaudhuri	21.01.1980	18.12.2008
7.	Sudhanshu Dhar Mishra	06.11.1979	18.12.2008
8.	Surabhi Sharma	16.02.1981	26.12.2008
9.	Alok Malviya	29.05.1979	18.12.2008
10.	Kalpana Singh	15.01.1981	18.12.2008
11.	Roli Khare	14.01.1980	18.12.2008
12.	Ajay Modi	23.12.1978	18.12.2008
13.	Priyanka Singh	26.11.1982	18.12.2008
14.	Richa Rastogi	22.09.1978	18.12.2008
15.	Rukmani Attari	23.08.1978	18.12.2008

1	2	3	4
16.	Prasoon Kabra	28.09.1980	18.12.2008
17.	Yogendra Mittal	26.01.1979	18.12.2008
18.	Abhishek Kumar	02.10.1983	18.12.2008
19.	Bhanwar Singh Ratnoo	13.01.1976	18.12.2008
20.	Rajeev Kumar	05.04.1977	18.12.2008
21.	Khairnar Amol Bharat	16.05.1977	05.01.2011
22.	Md. Shadab Ahmed	01.03.1979	29.04.2009
23.	Manu Chaurasia	02.05.1976	29.04.2009
24.	Madanappa Gari Earappa	15.03.1975	18.12.2008
25.	Ram Kumar Yadav	15.08.1972	18.12.2008
26.	Kumar Pranav	01.01.1973	18.12.2008
27.	Subash K.R.	24.10.1975	07.02.2009
28.	Rajat Kumar Kureel	28.07.1975	29.04.2009
29.	Umesh Chandra Bharati	02.01.1977	18.12.2008
30.	T. Shering Ongda	22.01.1979	18.12.2008
31.	Poonam Sharma	04.07.1980	29.04.2009

2007 Batch (CSE 2006)

1.	Namita Khurana	18.10.1981	10.12.2009
2.	Mini Chandra U	05.04.1981	10.05.2010
3.	Dipi Agrawal	15.04.1980	10.12.2009
4.	Shweta Mishra	15.10.1980	10.12.2009
5.	Abhishek Prabhat	17.12.1979	10.12.2009
6.	Praveen Verma	09.09.1981	10.05.2010
7.	Apoorva Bhardwaj	08.08.1980	10.05.2010
8.	V. Vidhyadhar	30.01.1977	10.12.2009
9.	Saurabh Singh	07.01.1982	10.12.2009
10.	Arju Garodia	05.12.1979	10.12.2009
11.	Sita Shrivastava	01.07.1980	10.12.2009
12.	N. Hemalatha	12.04.1981	10.05.2010
13.	Amit Katoch	18.03.1978	10.12.2009
14.	Manish Kumar Jha	15.01.1978	10.12.2009
15.	Sumit Kumar Verma	11.09.1978	10.12.2009
16.	Divya K.J.	07.02.1981	10.12.2009
17.	Alok Singh	02.09.1979	10.12.2009
18.	Raman Garg	25.08.1979	10.05.2010
19.	Geetinder Mann	14.12.1983	10.05.2010

1	2	3	4
20.	S. Sunder Rajan	15.12.1980	10.05.2010
21.	Shaurya Shashwati Shukla	06.05.1982	10.12.2009
22.	Veni Raj	02.05.1978	10.12.2009
23.	Mahender Bishnoi	12.08.1980	10.12.2009
24.	Prashant Kumar Mishra	14.01.1981	10.12.2009
25.	Rajat Mittal	20.03.1980	10.05.2010
26.	Anup Singh	30.06.1981	10.05.2010
27.	Shudhanshu Shekhar	01.03.1982	10.12.2009
28.	Deepti Chandola	08.04.1980	10.12.2009
29.	Vaibhav Jain	04.10.1979	10.05.2010
30.	Maresh Gopinath Jiwade	13.12.1978	10.12.2009
31.	Anchal Khandelwal	02.06.1980	10.12.2009
32.	Runi Pal	04.02.1977	10.12.2009
33.	Pankaj Srivastava	05.07.1977	10.12.2009
34.	Koushlendra Tewari	25.09.1976	10.12.2009
35.	Vikrant Pal Singh	20.04.1978	10.12.2009
36.	Amaninder Singh Dhindsa	22.04.1978	10.12.2009
37.	Bipin C.N.	04.05.1977	10.12.2009
38.	Amit Kumar Jain	04.09.1979	10.12.2009
39.	Mundhe Vishwas Sopan Rao	24.01.1980	10.05.2010
40.	M. Anitha	03.07.1980	10.12.2009
41.	Prashant Ranjan	11.03.1979	10.12.2009
42.	Saurab Kumar Rai	18.11.1978	10.05.2010
43.	Mukesh Jain	26.03.1982	10.12.2009
44.	Amresh Kumar Tiwari	11.03.1980	10.05.2010
45.	M.S. Nethrapal	23.06.1980	10.05.2010
46.	Manav Bansal	27.10.1979	10.12.2009
47.	Anupama Singla	25.12.1980	10.12.2009
48.	Shahnawaz UL Rahman	22.07.1982	10.05.2010
49.	Ram Tiwari	20.10.1977	10.12.2009
50.	Amit Dua	07.10.1977	10.12.2009
51.	Deshpande Saurabh Girish	08.05.1981	10.05.2010
52.	R.S. Arvindhakshan	29.04.1982	10.12.2009
53.	Ram Prakash Maurya	12.07.1984	10.12.2009
54.	Monika Rana	19.08.1983	10.12.2009

1	2	3	4
55.	Vikas Singh	19.06.1979	10.12.2009
56.	Laganpreet Sandhu	03.03.1980	10.12.2009
57.	Farhat Khan	18.08.1978	10.05.2010
58.	Sandeep Kumar Mishra	16.06.1978	10.12.2009
59.	Aditya Shukla	20.06.1981	10.12.2009
60.	Ashish Tripathi	05.08.1981	10.12.2009
61.	Virender Singh	30.05.1980	10.12.2009
62.	Rajesh Mahajan	28.11.1977	10.12.2009
63.	Shinde Sudhakar Namdeo	25.05.1979	10.05.2010
64.	Suman Kumar	01.03.1977	10.12.2009
65.	Renuga Devi P.	07.05.1977	10.12.2009
66.	H. Kabila	17.04.1982	10.12.2009
67.	Kirti Sankratyayan	26.06.1977	10.12.2009
68.	Ram Prakash Rastogi	17.02.1977	10.12.2009
69.	Yashvendra Singh	18.11.1980	10.12.2009
70.	C. Yamuna	01.12.1978	10.12.2009
71.	Raghu Nath	05.02.1975	10.05.2010
72.	Shabana Praveen	11.06.1974	10.12.2009
73.	Meenakashi Dohare	30.05.1982	10.12.2009
74.	Jenardhanan V.	03.02.1975	10.12.2009
75.	V. Justin	25.05.1975	10.12.2009
76.	Rajni Rani Roy	29.08.1977	10.12.2009
77.	Samrat Rahi	01.03.1984	10.12.2009
78.	Tarundeep	29.01.1982	10.12.2009
79.	Pavuna Sundari E.	12.06.1978	10.12.2009
80.	Anoop Singh	22.01.1978	10.12.2009
81.	Maimun Nisha Ansari	13.08.1978	10.12.2009
82.	B. Ramanjaneyulu	26.04.1981	10.12.2009
83.	Purshottam Kumar	09.04.1980	10.05.2010
84.	Vijyendra Kumar	16.12.1978	10.12.2009
85.	Bobde Amit Ashokrao	23.04.1979	10.12.2009
86.	Shivanand H. Kalakeri	21.07.1975	10.12.2009
87.	Das Rignesh Kalpesh	26.03.1978	10.12.2009
88.	Murali Mohan M.	01.06.1979	10.12.2009
89.	Sanjai Kumar Yadav	02.12.1978	10.12.2009
90.	B. Naveen Kumar	15.05.1978	10.12.2009

1	2	3	4
91. Amit Raj	02.12.1979	10.12.2009	
92. P. Muthushankar	17.06.1979	10.12.2009	
93. Rajesh Kumar Yadav	30.10.1980	10.12.2009	
94. Kiran D.	10.04.1979	10.12.2009	
95. Narendra Kumar Naik	15.01.1980	10.12.2009	
96. Abhishek Meshram	15.09.1981	10.05.2010	
97. Huidrom Robindro Singh	05.07.1979	10.12.2009	
98. Mrinal Kumar Das	26.06.1975	10.12.2009	
99. Inder Solanki	14.06.1977	10.12.2009	
100. Pallavi	07.02.1983	10.12.2009	
101. Dhoke Ajay Gopalrao	22.04.1978	10.05.2010	
102. Parmar Alpeshkumar Trikamalal	09.10.1976	10.12.2009	
103. Poonam Rai	08.08.1973	10.12.2009	
104. Uma Shankar Prasad	27.02.1977	10.12.2009	
105. Mohit Mrinal	01.10.1979	10.12.2009	
106. Waghmare Vipul Digambar	15.10.1979	10.05.2010	
107. Shashi Kajle	04.02.1982	10.12.2009	
108. Chanchal Meena	15.08.1982	10.12.2009	
109. Kranti	05.05.1980	10.12.2009	
110. Rintey Renthlei	19.01.1981	10.05.2010	
111. Prem Prakash Meena	08.08.1978	10.12.2009	
112. Bimal Kumar Meena	10.08.1976	10.12.2009	
113. M.C. Omi Ningshen	23.08.1976	10.12.2009	
114. Satyapal Singh Meena	25.09.1979	10.12.2009	
115. Roshanta Kumari Meena	30.06.1980	10.12.2009	
116. Siddharth Bhim Singh Meena	01.01.1980	10.12.2009	
117. Kumar Avikal Manu	04.11.1977	10.12.2009	
118. Sumit Kaur	19.02.1978	10.12.2009	
119. Pooja Swaroop	03.04.1978	10.12.2009	

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 7th May 2012

No. 11016/4/2012-IES—The President is pleased to appoint the following Grade IV Officers (Junior Time Scale) of Indian Economic Service of 2008 batch on substantive basis with

effect from the dates indicated against their respective names:—

Sl. No.	Name	Date of Confirmation
1.	Shri Manu J. Vetticken	01.03.2011
2.	Shri Rangeet Ghosh	01.03.2011
3.	Shri Abhishek Acharya	01.03.2011
4.	Ms. Monica Jaitly	01.03.2011
5.	Shri Rahees M.	01.03.2011
6.	Shri Subrat Kumar Pradhan	01.03.2011
7.	Shri Sonamani Haobam	01.03.2011
8.	Shri Deepak Rao	01.03.2011
9.	Shri Subhajit Roy	01.03.2011
10.	Shri Jitender Singh	01.03.2011
11.	Ms. Manisha Meena	01.03.2011
12.	Shri Prasanna V Salian	01.03.2011
13.	Shri Sasikumar S.	01.03.2011
14.	Ms. Mamta	01.03.2011
15.	Ms. Shweta	01.03.2011
16.	Ms. Jaya Priyadarshini Yarikipati	01.03.2011

A. K. SRIVASTAVA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 6th June 2012

No. A-12026/6/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Kush Lal Sharma of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) to the post of Principal Private Secretary (PPS) on regular basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from 1st May, 2012 in pursuance to DoP&T's O.M. No. 3/3/2011-CS-II(A) dated 20th March, 2012.

R. S. R. MURTHY, Under Secy.

CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

New Delhi-110003, the 10th May 2012

No. A-31013/1/2012/Gr.A/796-801—In terms of the provisions of Rule 7 of ICAS (Gr. A) Recruitment Rules, 2006, as amended from time to time, the President is pleased to appoint the following ICAS officer of 2008 batch in the Junior Time Scale (Rs. 8,000—13,500/-, prervised) (New

PB-3 with GP of Rs. 5,400/-) in substantive capacity with effect from the dates shown against him:—

Name	Date of Substantive Appointment
Shri Hanumaiah Korukonda	01.09.2010

ALOK RANJAN,
Dy. Controller General of Accounts

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 30th May 2012

No. PFG (659)/2002-Admn.II—Consequent upon his transfer vide Office order No. 22011/1/2011-Admn.II dated 14.05.2012 Shri Sanjay Kumar Gupta, a Senior Time Scale officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge of the post of Deputy Director of E.Gov. Cell, Ministry of Corporate Affairs at Hqrs. with effect from 22.05.2012 (F.N.), until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG (594)/99-Admn.II—Consequent upon his transfer vide Office order No. 22011/1/2011-Admn.II dated 25.04.2012 Shri. P. K. Batta, a Junior Administrative Grade officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge of the post of Joint Director, Ministry of Corporate Affairs at Hqrs. with effect from 18.05.2012 (F.N.), until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

The 6th June 2012

No. PFG(528)/94-Ad.II—In exercise of the powers conferred by Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Bibekananda Mohanty, as Official Liquidator in the Office of the Official Liquidator, Jharkhand High Court, Jharkhand with effect from 14.05.2012 (forenoon), until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 4th June 2012

No. PFG(1024)/2012-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri B. Koteswara Rao, IRS (IT:1992) as Director in the Ministry of Corporate Affairs for a period of five years with effect from the afternoon of 4th June, 2012 and upto 4th June, 2017 or until further orders, whichever events takes place earlier.

J. S. GUPTA, Under Secy.

The 6th June 2012

No. PFG(1025)/2012-Ad.I—In pursuance to Department of Economic Affairs, Ministry of Finance's order No. P-6/

2012 dated 29.05.2012 issued under File No. 13016/4/2012-IES, Shri P.S. Dalodiya, an officer of Indian Economic Service on his promotion to Senior Time Scale of IES in pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/- has assumed the charge of the post of Deputy Director in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. the forenoon of 6th June, 2012.

J. S. GUPTA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 7th June 2012

No. A-12023/01/2011-Admn.-IV—The President is pleased to appoint Sh. Dhan Raj, as member (Technical) in the office of the Company Law Board in the pay Scale of Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%)—79,000/- with effect from the forenoon of 16th May, 2012 till he attains the age of 62 years or till the winding up of the Company Law Board and the National Company Law Tribunal (NCLT) is constituted/operationalized or until further orders, whichever is the earliest.

RAJINDER SINGH, Under Secy.

No. A-12023/01/2011-Admn. IV—The President is pleased to appoint Sh. Amalesh Bandopadhyay as Member (Technical) in the office of the Company Law Board in the Pay Scale of Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%)—Rs. 79,000/- with effect from the forenoon of 4th May, 2012 till he attains the age of 62 years or till the winding up of the Company Law Board and the National Company Law Tribunal (NCLT) is constituted/operationalized or until further orders, whichever is the earliest.

2. This appointment is subject to the outcome of the Writ Petition WP (C) No. 671/2012 in the matter of U. C. Nahta Vs. Union of India & Others pending in the High Court of Delhi at New Delhi and Writ Petition (C) No. 2782/2012 in the matter of Veena Kalra Vs. UOI & Others in the High Court of Delhi at New Delhi.

RAJINDER SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 31st May 2012

No. A-19011/488/1994-E.I.—On attaining the age of superannuation Shri S. S. Bose, Senior Development Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st May, 2012.

L. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-19012/1331/2011-E.I.—On attaining the age of superannuation Shri Trilochan Singh, Private Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st May, 2012.

L. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-19012/1259/2007-E.I.—On attaining the age of superannuation Smt. Shashi Malhotra, Section Officer (ad-hoc) Central Secretariat Service in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, stand retired from Government Service, with effect from the afternoon of 31st May, 2012.

L. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-19012/905/93-E.I.—On attaining the age of superannuation Shri Ved Prakash, Principal Private Secretary (PFS) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st May, 2012.

L. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-19012/1253/2007-E.I.—On attaining the age of superannuation Shri Balbir Singh, Section Officer (ad-hoc) Central Secretariat in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, stands retired from Government Service, with effect from the afternoon of 31st May, 2012.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 1st May 2012

No. 5/2012 (A-12026/3/2009-Estt.)—The President is pleased to appoint Shri V. Srinivas, Technical Officer, Ministry of Rural Development, Department of Land Resources, Nirman Bhawan, New Delhi working as Assistant Private Secretary to Minister of State for Textiles (Smt. Panabaaka Lakshmi) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- as Additional Private Secretary to Minister of State for Textiles (Smt. Panabaaka Lakshmi) in the Pay Band-3 of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 2nd May, 2012.

2. The appointment of Shri V. Srinivas will be on co-terminus basis or for the period as desired by Minister of State for Textiles, or until further orders, whichever is earlier.

INDERJIT SINGH, Director

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF BIO-TECHNOLOGY)

New Delhi-3, the 4th June 2012

No. A-32011/01/2012-Estt.—The Competent Authority hereby appoints Sh. Ravi Bhaskar, Junior Technical Assistant of this Department as Junior Analyst (Technical) on promotion in the Pay Scale of PB-2 : Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,600/- with effect from 1st June 2011 and until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the Appointing Authority.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 1st June 2012

No. 12/7/2009-ASO—On attaining the age of superannuation, Shri Alok Perti, IAS (AM : 77) retired from Government Service w.e.f. 31st May, 2012 (AN). Shri Alok Perti also relinquished charge of the post of Secretary in Ministry of Coal w.e.f. 31.05.2012 (AN).

SHARAD GHODKE, Director

No. 12/3/2072-ASO—The President is pleased to appoint Shri S. K. Srivastava, IAS (AM : 78) as Secretary to the Government of India in the Ministry of Coal with effect from 1st June, 2012 (FN) until further orders, vice Shri Alok Perti, IAS (AM : 77), on his retirement on 31st May, 2012.

SHARAD GHODKE, Director

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 10th May 2012

No. 3/11/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rokhum Lalremruata, (ICAS-1996) as Director in the Ministry of Mines w.e.f. the forenoon of 07.05.2012.

NEETA GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 12th April 2012

No. 2(2)/2012-Estt.—Consequent upon his regular promotion and inclusion in the Select List Year 2010 vide the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS. II (A) dated 20th March 2012, Shri A. Jaikumar Menon, PPS (ad-hoc) of the CSSS in Ministry of Steel is appointed as Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Steel with effect from 20th March, 2012.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(2)/2012-Estt.—Consequent upon his regular promotion and inclusion in the Select List Year 2010 vide the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS. II (A) dated 20th March 2012, Shri Rajesh Sharma, PPS (ad-hoc) of the CSSS in the Ministry of Consumer Affairs is appointed as Principal Private Secretary on regular basis in Ministry of Steel with effect from the afternoon 30th March, 2012.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(2)/2012-Estt.—Consequent upon inclusion of her name in the Select List Year 2010 vide the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS. II (A) dated 20th March 2012, Ms. Sudha is appointed as Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Steel w.e.f. 20th March, 2012.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(2)/2012-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List Year 2010 vide the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS. II (A) dated 20th March 2012, Shri Kishori Lal is appointed as Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Steel w.e.f. 20th March, 2012.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 2(2)/2012-Estt.—Consequent upon his regular promotion and inclusion in the Select List Year 2010 vide the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS. II (A) dated 20th March, 2012. Shri Rajinder Vaid is appointed as Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Steel w.e.f. 20th March, 2012.

S. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 29th May 2012

No. A-19011/6/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Kumar, Indian Telecom Service (1991), as Director in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. the date of assumption of charge of the post, for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

2. Shri Pankaj Kumar, Ind. Telecom Service (1991), has assumed the charge of the post of Director in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 23.05.2012 (F/N). His central deputation tenure in this Ministry is upto 22.05.2017.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 5th June 2012

No. A-12011/3/2012-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/10/2012-CS.I dated 10th May, 2012 and O.M. No. 6/5/2011-CS.I(S) dated 29th May, 2012, the President is pleased to appoint Shri Pitamber Pathak, Section Officer (ad-hoc) of CSS Cadre in the Department of Industrial Policy & Promotion as Section Officer of CSS Cadre in the Department of Consumer Affairs on ad-hoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 1st June, 2012 to 31st December, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

The 6th June 2012

No. A-11011/1/2012-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. 13016/4/2012-IES dated 2nd April, 2012 and 30th May, 2012, the President is pleased to appoint Ms. Bhumika Verma, IES, Assistant Director in the Department of Commerce as Deputy Director in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 1st June, 2012 and until further orders.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 1st June 2012

No. A-12023/4/95-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar, IAS (UP : 78) as Secretary, Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 1st June, 2012 until further orders.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 5th June 2012

No. A-12025/235/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rakesh Azad to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 15.10.2008 until further orders. Dr. Rakesh Azad is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Rakesh Azad shall be on probation for two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

The 6th June 2012

No. A-12025/135/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sayeed Rashid Anwar in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 11th July, 2005 until further orders. Dr. Sayeed Rashid Anwar is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. He will be on probation for a period of two years.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 6th June 2012

No. A-12025/35/2009-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sukhdeep Singh, to the post of Assistant Professor in the Speciality of Forensic Medicine in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 23rd March, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 7th June 2012

No. A-12025/39/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Madhulika Monga, to the post of Assistant Professor in the Speciality of Physiology in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 28th July, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th June 2012

No. A-19013/03/2012-E.I.—The President is pleased to appoint Dr. Ram Prasad Meena, IPS (AM : 93) as Director in the Department of Health & Family Welfare for the balance period of his Central Deputation tenure i.e. 31.05.2016, with effect from the forenoon of 04th June, 2012, or until further orders, whichever event takes place earlier.

N. K. SWAMY, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 5th June 2012

No. 11023/01/FASAL/2012-IT—The President is pleased to appoint Smt. S. Mamatha, Scientist/Engineer-SD, in the National Remote Sensing Centre, Hyderabad as Scientist-SD in Mahalanobis National Crop Forecast Centre at New Delhi

in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on transfer basis from National Remote Sensing Centre, Hyderabad w.e.f. 27.03.2012 (F/N) till further orders.

Smt. S. Mamatha will continue to draw Salary, Allowances and Incentives as per her entitlement in the National Remote Sensing Centre, Hyderabad. However, location based allowances (e.g. House Rent Allowance) shall be paid as applicable in New Delhi.

PROMODE KUMAR SINGH, Under Secy.

The 6th June 2012

No. 11023/01/FASAL/2012-IT—The President is pleased to appoint Dr. Shibendu Shankar Ray, Scientist/Engineer-SG, in the Space Application Centre, Department of Space, Ahmedabad as Director, Mahalanobis National Crop Forecast Centre at New Delhi in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,900/- on transfer basis, from Space Application Centre, Department of Space, Ahmedabad w.e.f. 14.03.2012 (F/N) till further orders.

Dr. Shibendu Shankar Ray will continue to draw Salary, Allowances and Incentives as per his entitlement in the Space Application Centre, Ahmedabad. However, location based allowances (e.g. House Rent Allowance) shall be paid as applicable in New Delhi.

PROMODE KUMAR SINGH, Under Secy.

No. 11023/01/FASAL/2012-IT—The President is pleased to appoint Smt. Neetu, Scientist/Engineer-SC, in the Space Application Centre, Department of Space, Ahmedabad as Scientist-SC in Mahalanobis National Crop Forecast Centre at New Delhi in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- on transfer basis from Space Application Centre, Department of Space, Ahmedabad w.e.f. 15.03.2012 (F/N) till further orders.

Smt. Neetu will continue to draw Salary, Allowances and Incentives as per her entitlement in the Space Application Centre, Ahmedabad. However, location based allowances (e.g. House Rent Allowance) shall be paid as applicable in New Delhi.

PROMODE KUMAR SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 4th June 2012

No. A-12023/8/2011-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Shankar Laxman, Deputy Commissioner (Fishing

Harbour) to the post of Joint Commissioner (Fisheries-Anti Poaching Law) in the Scale of Pay of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/- (Grade Pay) w.e.f. the forenoon of 01.06.2012 on regular promotion basis in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

R. S. JAYAL, Under Secy.

No. A-12025/15/2010-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri R. K. Gupta, Assistant Commissioner (Dairy Development) to the post of Deputy Commissioner (Dairy Development) in the Scale of Pay of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/- (Grade Pay) w.e.f. the forenoon of 01.06.2012 on regular promotion basis in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

R. S. JAYAL, Under Secy.

CENTRAL INSTITUTE OF COASTAL ENGINEERING FOR FISHERY

Bangalore-560013, the 11th June 2012

No. A.12(25)/2012-CEF—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group 'B') (Gazetted), the undersigned is pleased to promote Shri S. Gopalakrishna, Junior Engineer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore to the post of Assistant Engineer (Civil) in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- with effect from 7th June 2012 (F/N) until further orders.

C. T. BETGERI, Dir.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th May 2012

No. A.32014/01/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint the following as Statistical Investigator Grade-I in the Ministry of Rural Development in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- with effect from the date mentioned against their names and until further orders, on the basis of Order issued by the Ministry of Statistics & Programme Implementation vide No. 12016/2/2009-SSS dated 30.01.2009 and O.M. No. 12016/2/2011-SSS dated the 19th May, 2011 :—

Sl. No.	Name & Employee Code	Date of Appointment
1	2	3
1.	Shri Ganga Charan (3115)	31.01.2009
2.	Shri O. P. Mishra (3207)	21.05.2009
3.	Shri A. D. Shrama (3843)	23.05.2011
4.	Shri S. C. Jha (3900)	01.07.2011
5.	Shri M. Kumar Swamy (3958)	27.06.2011

1	2	3
6.	Shri Ashutosh Kumar (4056)	30.12.2011
7.	Shri J. K. Meena (4221)	19.05.2011
8.	Shri P. K. Gupta (4203)	09.01.2012
9.	Shri Kaliash Manohar Somkuwar (4408)	27.06.2011
10.	Shri Gurdial Sharma (4220)	27.12.2011

GEORGE Y., Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 1st June 2012

No. A.32011/9/2006 E.I—On the expiry of her extended tenure of Central Deputation, Smt. Anita Kaul, IAS (KN: 79), Additional Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development shall stand relieved of her duties from this Ministry with effect from the afternoon of 2nd June, 2012. Smt. Anita Kaul is requested to report to her parent cadre i.e. Government of Karnataka.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 5th June 2012

No. 2-1/2011-Admn./CHD/Languages-I—The President is pleased to appoint the following officers of the Central Hindi Directorate, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, to the post of Deputy Director (Language) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from the date of assumption of charge of the said posts by them :—

1. Dr. B. P. Nidaria, Assistant Director
2. Smt. Kuldeep Kaur, Assistant Director
3. Dr. B. R. Prasad, Assistant Director

K. P. J. GERALD, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 31st May 2012

No. 4-37/2009-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 9/27/2012-EO(SM-I) dated 26th May, 2012, the President is pleased to relieve Shri Sudhir Kumar, IAS (UP: 78), Special Secretary, Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 01st June, 2012 for taking up his new assignment as Secretary, Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 4th June 2012

No. 12034/1/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Dharendra Ojha, Indian Information Service (1990) as Private Secretary to the Minister of State for Tribal Affairs (Sh. Mahadeo Singh Khandela) at the level of Director (PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/-) for a period of 5 years with effect from forenoon of 31.05.2012 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

N. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATION &
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATION)

New Delhi-110001, the 4th May 2012

Sub.: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services (Main) Examination, 2010.

No. 7-03/2009-SEA.I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2010 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Shri Sanap Bajirao Ramnath (Rank No. 765) (O.B.C.) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- on the following terms :—

- (i) He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to :
(i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the community certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to OBC or not to belong to creamy layer is false, his/her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA-I)

To

Shri Sanap Bajirao Ramnath
C/o Sh. Kelndre. S.
13, Nav Jeevan Teachers Colony,
Behind-S.T. Stand,
TQ & Distt. Beed,
Maharashtra-424201

DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION
TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 31st June 2012

No. 2(3)/2011-Pers.I—The President is pleased to appoint Smt. Pushpa Gilani, Joint Director (in-situ) as Deputy Financial Adviser in the Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- p.m. w.e.f. 31.05.2012.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 5th May 2012

No. ERB-I/2012/2/23—Shri Shailendra Singh, SG/IRSME, Northern Railway on his promotion to Senior Administrative Grade has been appointed as Executive Director, Mechanical Engineering (Coaching), Railway Board with effect from the afternoon of 16.05.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

New Delhi, the 22nd May 2012

No. 2006/E(GR)/I/3/1—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Engineers with effect from the date noted against each :—

Sl.No.	Name	Date of Joining
1	2	3
	S/Sh./Ms.	
1.	Sunil Kumar	11.12.2006
2.	Ateen Kumar Tomar	11.12.2006
3.	Vinay Tak	11.12.2006
4.	Rakesh Ranjan	11.12.2006
5.	K. Mutyala Naidu	11.12.2006
6.	Sumeet Khajuria	11.12.2006
7.	Sona P.	11.12.2006
8.	Nitish Kumar Ranjan	11.12.2006
9.	Sandeep Khandelwal	14.12.2006
10.	Yogesh Kumar Sharma	11.12.2006
11.	Devendra Gupta	11.12.2006
12.	Anupam Awasthi	11.12.2006
13.	Sandeep Jain	11.12.2006
14.	Gautam Kumar	11.12.2006
15.	Srinivas Malladi (Provisional)	11.12.2006
16.	M. Ramesh Kumar	19.12.2006
17.	Atul	11.12.2006
18.	Puskar Srivastava	11.12.2006
19.	Sumit Jain	11.12.2006

1	2	3
	S/Sh./Ms.	
20.	Rajesh Chikhale	11.12.2006
21.	Biswajeet Bhoi	11.12.2006
22.	Ajay Singh	11.12.2006
23.	Rajeev Kumar	11.12.2006
24.	Bhuvanesh Singh	11.12.2006
25.	Gosikonda Srinivasarao	11.12.2006
26.	Shobh Nath	11.12.2006
27.	Anurag Kumar	11.12.2006
28.	Sanjay Kumar Yadav	11.12.2006
29.	Rizwan Ahmad	11.12.2006
30.	Warij Nayan (Provisional)	11.12.2006
31.	Sahemlung Kamei	11.12.2006
32.	Paritosh Gautam	11.12.2006
33.	Ajeet Singh (Provisional)	18.12.2006
34.	Harish Kumar	11.12.2006
35.	Rajendra Kumar Meena	11.12.2006
36.	Sitesh Das	11.12.2006
37.	Gaurav	11.12.2006
38.	Rakesh Kumar Shersiya	11.12.2006
39.	Hauzel Velngulmuan	11.12.2006
40.	Lakhan Lal Meena	11.12.2006
41.	Vijai Singh Meena	11.12.2006

MAMTA KANDWAL, Jt. Dir. Estt. (GR)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 28th May 2012

No. LH-21013/1/2012-SL—The President is pleased to promote Shri J. S. Chella, Technician (General) to the post of Assistant Engineer (Mechanical) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/- (Revised) in the Directorate of Lighthouses & Lightships with effect from the forenoon of 7th March, 2012, until further orders.

KANCHAN B. HAMZA, Under Secy.

No. LH-21013/1/2012-SL—The President is pleased to promote Shri A. K. Debata, Assistant Executive Engineer (Electronics) to the post of Deputy Director in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Directorate of Lighthouses & Lightships with effect from the forenoon of 2nd April, 2012, until further orders.

KANCHAN B. HAMZA, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 15th May 2012

No. A-12023/1/2009-E-I—The President is pleased to appoint Shri G. C. Upadhyay, Principal Private Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce (Supply Division) as Additional Private Secretary to Dr. C. P. Joshi, Hon'ble Minister for Road Transport & Highways in Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay on co-terminus basis w.e.f. 1.5.2012 (F.N.) until further orders or till the Minister desires his services or demits the office, whichever is the earliest.

H. R. MEENA, Under Secy.

New Delhi, the 1st May 2012

No. A-12025/1/2010-E-I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 9/30/2009-EO(MM-I) dated 23.2.2012, the President is pleased to appoint Shri Rohit Kumar, IAS (RJ:97) as Director in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- on lateral shift basis w.e.f. 20.4.2012 (F.N.) for the balance tenure of his central deputation i.e. upto 10.11.2014 or until further orders, whichever is earlier.

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 10th May 2012

No. 16/2012 (F. No. 5/3/2012-Adm.II)—Consequent upon inclusion of their names in panel of PPS for Select List Year 2010 vide Department of Personnel & Training's OM. No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20.03.2012 and nomination to Ministry of Power cadre of CSSS, the President is pleased to appoint the following ad hoc Principal Private Secretaries of CSSS on regular basis in the Ministry of Power cadre of CSSS in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-), with effect from the forenoon of 20.03.2012, until further orders :—

Sl.No.	Name	Posting
1	2	3
	S/Shri	
1.	Ashok Kumar-II	MOP
2.	S. Dattatreya	CEA
3.	R. K. Piplani	CEA
4.	Smt. Naresh Chopra	MNRE
5.	Smt. Manju Sharma	MOP
6.	P. S. Bhandari	MOP

1	2	3
7.	V. K. Manchanda	CEA
8.	Smt. Swarn Lata	MOP
9.	Smt. B. Sandhya	CEA
10.	Bhoop Singh	MOP
11.	Jitender Bhagat	MNRE
12.	Mahesh Kumar Gupta	CEA
13.	Smt. Darshan Kaur	MOP
14.	S. Radhagangadharan	CEA
15.	P. V. Mohan	CEA
16.	S. Muraleedharan	CEA
17.	Anju Vij	MNRE
18.	Subhash Kumari Kailay	MNRE
19.	C. S. Ravindramani	CEA
20.	Sneh Lata Jwas	MOP

P. P. BOSE, Under Secy.

New Delhi, the 7th June 2012

No. 13/2012 (F. No. A-38012/1/2012-Adm.I)—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, in Central Electricity Authority retired from service under the Government of India on attaining the age of superannuation :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Shri P. Raut	Chief Engineer	31.5.2012
2.	Shri M. K. Khandelwal	Director	31.5.2012
3.	Shri Bhupinder Singh	Director	31.5.2012

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 31st May 2012

No. A-32013/1/2012-TCPO/Admn.III/UD-II—On the basis of recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri R. Srinivas, Associate Town & Country Planner to the post of Town & Country Planner in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- in Town and Country Planning Organisation w.e.f. the day he assumes the charge of the post till further orders.

K. G. MOHANTA, Under Secy.